



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20—अगस्त 26, 2005 (श्रावण 29, 1927)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20—AUGUST 26, 2005 (SHRAVANA 29, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अगस्त 2005

सं. आरएस/3 (xiii)/2005/40-कार्मिक.--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ सुरक्षा सहायक, श्री जितेन्द्र मोहन भारद्वाज को 8 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ए-12025/13/2002-प्रशा. II.--संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति, योजना आयोग में श्री प्रेमसिंह, अनुसंधान अधिकारी (संचार) को योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के पद पर 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान

में नियमित पदोन्नति आधार पर 12 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के. के. छावड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. यो.आ.(पी) 19/प्रशा/एस.आर.ओ./2003-प.घा.स.--पश्चिमी घाट सचिवालय, योजना आयोग के दिनांक 2 मई, 2005 के समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक आशोधन में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सहायक निदेशक, श्री मेवाराम की पश्चिमी घाट सचिवालय, योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति को, राष्ट्रपति, दो वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 12.05.2005 से 11.05.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो पहले हो, बढ़ाते हैं।

डॉ. (श्रीमती) इन्दु पटनायक, उप सलाहकार (ब.स्त.यो.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. ए-32013/01/2003-प्रशा. IV (वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.06.2005 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2003--सी.एस. (II) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विधि आयोग विधि कार्य विभाग के श्री ए.के. ठाकुर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की वर्ष 2001 की चयन सूची के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में शामिल होने पर उसी विभाग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशवंत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2005

फा.सं ए-12023/13/2005-प्रशा. III (वि.का.)--राष्ट्रपति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वी.वी.एस.एन. मूर्ति को दिनांक 18 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण के लेखा सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी.एम. रत्नम, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 अगस्त 2005

सं. 14016/23/2004-यू.टी.एस.- II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की पुलिस सेवा में दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए 6,500-2000-10,500/-रुपए के वेतनमान में प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म तिथि
	(सर्व श्री)		
1.	जगमिन्दर सिंह	डी-1/480	01.03.1956
2.	महेश चन्द शर्मा	डी-1/481	09.07.1947
3.	सुरेन्द्र पाल सिंह	डी-1/482	03.12.1948
4.	सत्यव्रत	डी-1/483	05.08.1946
5.	राजेन्द्र प्रसाद (अनुसूचित जाति)	डी-1/155	27.11.1951

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2005

सं. I-18012/6/2005-आई.पी.एस.- I.--भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मक्ष दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	आई.पी. एस. में स्थायीकरण की तारीख
	(सर्वश्री)	
1.	अमर नाथ शर्मा	19.09.1995
2.	धर्म पाल	19.12.1995
3.	प्रदीप कुमार	15.10.1997
4.	जीग राज ठाकुर	12.06.1998
5.	शिव शैम शर्मा	06.03.1999
6.	पी.एल. ठाकुर	12.11.1999
7.	गणेश दत्त भार्गव	10.09.2000
8.	शिव पाल सिंह वर्मा	09.08.2001

ओ.एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2005

सं. I-14012/8/2004-आई.पी.एस.- IV.--राष्ट्रपति, श्री सत्येन्द्र मथुरिया, आई.पी.एस. (प. बंगाल: 2003) का भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र 13 मई, 2005 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं।

जे.बी. कौशिश, डेस्क अधिकारी

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2005

सं. 2/16/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती गौरी चैटर्जी, भा.प्र.से. (प. बं.: 1971) को 1 अगस्त, 2005 (पूर्वाह्न) से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सजल मित्रा, निदेशक (प्रशासन)

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. 24012/10/2003-स्थापना (ख).--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री बरून मित्रा, जो वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, कोलकाता में सहायक निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं, को 14.06.2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर

10,000-375-15,200/- रुपये के वेतनमान में कोलकाता स्थित कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती शुभा ठाकुर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2005

सं. ए-32013/2/2005-प्रशा.1.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री मोहिन्द्र सिंह शर्मा	13.07.2005 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए.के. कश्यप	11.07.2005 (पूर्वाह्न)

2. तदर्थ नियुक्ति उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। इस तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

वी.के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अगस्त 2005

सं. 24012/01/2005-अ.भा.से. (II).--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री एस.वी. अय्यर (मध्य प्रदेश: 81) का, भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 09 जुलाई, 1998 से त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं।

शौकत अली, डेस्क अधिकारी

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. ए-12011/8/2005-प्रशा.11.--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 26.07.2005 के का. ज्ञा.सं. 11017/1/2005-सीएस के अनुसरण में, सीएसएस के वित्त संवर्ग की सहायक श्रीमति सी.पी. मारवाह को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 26.07.2005 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में श्रीमति सी.पी. मारवाह, सहायक की तदर्थ नियुक्ति निम्नोक्त शर्तों के अधीन होगी:--

क. तदर्थ प्रोन्नति कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में

उनका नाम शामिल किए जाने का या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ख. तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोट और/या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, उन्हें, ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19011/4/2003-प्रशा.11.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2005 के पत्र सं. 4/12/2005-ईओ (एस.एम.1) के अनुसार श्री विवेक मेहरोत्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा: 74) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में, वैयक्तिक उन्नयन आधार पर दिनांक 27 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2005

सं. 2/13/2000-सिक्का-1.--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 07/08/2001 तथा 14.09.2004 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में, भारत सरकार टकसाल में 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर महाप्रबंधक के रूप में श्री प्रशांत कुमार दास की नियुक्ति को दिनांक 07.08.2005 से छः माह की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

नवीन के. चौधरी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2005

सं. एफ-8/9/2004-मुद्रा-1 (एस.पी.एम).--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री देविन्दर मोहन शर्मा, उपमहाप्रबंधक, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद, ने दिनांक 31.05.2005 (अपराह्न) से उपमहाप्रबंधक का पद त्याग दिया है। अतः प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद की अधिकारी सूची से उनका नाम उक्त तारीख से काट दिया गया है।

पी.के. शर्मा, अवर सचिव

(मुद्रा एवं सिक्का निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2005

एफ. सं.-4 (5)/2002-मुद्रा-1 (एस.पी.एम).--राष्ट्रपति, श्री के. आर. फसते, क्रय अधिकारी, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद को यदोन्नति पर तथा आगामी आदेश तक प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में दिनांक 14.07.2005 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर 8,000-13,500 रुपये

(संशोधित) के वेतनमान में सहायक प्रबंधक (स्टॉक नियंत्रण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. के. शर्मा, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2005

सं. ए-22015/1/2004-प्रशा.1.--राष्ट्रपति, सी.एस.एस. के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में उनके नाम के आगे दी गई तारीख से तथा अगले आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के ग्रेड पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	अवर सचिव ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
	(श्री/सर्वश्री)	
1.	श्री एन.के. भगत	25.07.2005 (पूर्वाह)
2.	श्रीमती एस. ताम्हणे	22.07.2005 (पूर्वाह)
3.	श्री मानव रे	14.07.2005 (पूर्वाह)

2. उपरोक्त निर्दिष्ट तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी:

(क) तदर्थ नियुक्तिय संबंधित व्यक्ति को इस ग्रेड पर अनिश्चित रूप से कार्य करने अथवा नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई हक प्रदान नहीं करती है।

(ख) तदर्थ नियुक्ति बिना किसी कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी.(1923)/प्रशा.1/2005.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा संघर्ष के श्री एस.एस. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में अधिवर्षिता की सेवावधि को पूरा कर लेने के पश्चात् सरकारी सेवा से दिनांक 31 जुलाई, 2005 की अपराह्न से सेवानिवृत्त होते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2005

सं. 19/2005 (ए-32012/2/2004-ई. 1).--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 2005 के का.ज्ञा. सं. 21/24/2005 सी.एस. I (बी) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.)

के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में तदर्थ आधार पर ग्रेड I (अवर सचिव) में नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सी.एस.एल. सं./एस.एल. वर्ष	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री आर.पी. सिंह	5111	11.07.2005
2.	श्री प्रेम चंद्र पांडेय	5130	14.07.2005
3.	श्री मोहन लाल वाधवानी	5138	11.07.2005
4.	श्री एस.के. गोयल	5159	11.07.2005
5.	श्री कृष्ण चंद्र कुमार	5174	11.07.2005

2. उपरोक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित के अधधीन है:--

(i) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड I में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस.के. तुली, उप सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2005

सं. ए-19011/9/2005स्थापना-I.--राष्ट्रपति, श्री जी.एस. वजीर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 मई, 2005 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2002-सीएस 2 के तहत वर्ष 2001 के लिए अंचल योजना के अंतर्गत के. स.आ.से. के आशुलिपिक वर्ग 'क और ख' (विलयित) की चयन सूची में सम्मिलित कर लिए जाने और उन्हें विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 1 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से 6,500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में के.स.आ.से के निजी सचिव वर्ग "क और ख" (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. पी-I/413/2004 स्था.--राष्ट्रपति, श्री आर.के. भार्गव, आई.ए. एस. (एम.एच.:72) को, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2005 के पत्राचार सं. 4/12/2005-इ. ओ. (एस. एम. I) के द्वारा उन्हें सौंपे गए विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग में अपर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए, 1 अगस्त, 2005 (अपराह्न) से खान मंत्रालय में अपर सचिव के पद से सहर्ष कार्यमुक्त करते हैं।

टी. एस. भाटिया, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. 5(17)/91-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा गृह मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी और अवर सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु नामांकित किए जाने पर इस समय इस्पात मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे श्री बी.के. वर्मा को दिनांक 18.07.2005 (पूर्वाह्न) से एतद्वारा कार्यभार सौंपा जाता है। तदनुसार उनकी सेवाएं इसी तारीख से गृह मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. 11(4)/2005-स्था.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I के अधिकारी श्री एस.के. मुखर्जी, जो इस्पात मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे, अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करके दिनांक 31.07.2005 को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

सं. 11(14)/2005-स्था.--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की श्रीमती रानी खुराना, सहायक, को उसी सेवा तथा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव और अगले आदेशों या नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

तदर्थ आधार पर की गई यह नियुक्ति उनको अनिश्चित काल तक अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

बाबू राम, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. ए-19014/01/2005-प्रशा.-I.--राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) (सीएसएल सं. 5092) के अनुभाग अधिकारी श्री श्रीनिवास प्रधान को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 12.07.2005 (पूर्वाह्न) से आगे और आदेश होने तक 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2005

सं. ए-38011/01/2004-पी-I.--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अपर निदेशक (वैज्ञानिक) श्री एन.के. शर्मा द्वारा अधिवर्षिता वय पूरी कर लेने पर दिनांक 30 जून, 2004 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. ए-32013/08/2005-स्था.-I.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस-I के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर उनकी पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग संवर्ग की नियमित अनुभाग अधिकारी श्रीमती वालसम्मा के. डैनियल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में दिनांक 15 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

1. तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप उस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल कराने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

पी.जी. कलाधरन, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. ए-12025/8/2004 सी.एच.एस.-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. मधुरिमा तनेजा को 21.05.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. मधुरिमा तनेजा को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त 2005

सं. 12025/35/2000-सी.एच.एस.-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. शंकर प्रसाद के. को 27.02.2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. शंकर प्रसाद के. को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2005

सं. ए-12025/18/2001-सी.एच.एस.-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. ललित मोहन को दिनांक 9.4.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. ललित मोहन को उसी तिथि से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/72/2004-सी.एच.एस.-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. हरिओम गुप्ता को दिनांक 25.5.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500 रु. के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. हरिओम गुप्ता को उसी तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत अलवर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. ए-32013/9/2005-स्था.-I.--राष्ट्रपति, सुश्री अर्चना वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए.एम. 95) को 16 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी.जी. कलाधरण, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग
(आयुष)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. ए-12031/2/96-भाचिप (स्था. II).--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.07.2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस. I के अनुसरण में, श्री अंशुमन शर्मा, अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में दिनांक 14.07.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. अवर सचिव के पद पर श्री अंशुमन शर्मा की प्रोन्नति तदर्थ आधार पर निम्न शर्तों के अधीन है:--

1. तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में समावेश होने या ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

II. अतः तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बगैर किसी समय भी समाप्त की जा सकती है।

एम.एल. सिद्धाना, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. 4-3/95-मशी. (प्रशा.).--कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'क' राजपत्रित) की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी श्री जे.जे.आर. नारवारे को रु. 10,000-15,200 के वेतनमान में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान अनन्तपुर (आ.प्र.) में प्रोन्नति द्वारा चयन के आधार पर दिनांक 6.07.2005 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ परीक्षण इंजीनियर (जी.सी.एस. समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच.सी. बतरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2005

सं. 12026/5/200-स्था.-I/स्था.-V.--राष्ट्रपति, श्री धर्म पाल, उप-आयुक्त (आई.एन.एम.) की तदर्थ नियुक्ति को कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-आयुक्त (आई.एन.एम.) के पद पर दिनांक 10.05.2005 से 24.05.2005 तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से उप-आयुक्त (आई.एन.एम.) के ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

के.डी. उप्रेती, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. ए-19011/7/2005-प्रशा.-I.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, हैस्सरघट्टा, बंगलौर के निदेशक श्री मजदूद अहमद को 12,000-16,500/-रुपये के वेतनमान में 25.07.2005 पूर्वाह्न से चार वर्षों के लिए या उनकी अधिवर्षिता प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो इस विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर उपायुक्त (कुक्कुट) नियुक्त करते हैं।

पी.एल.मीना, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एन.आई.सी./पी.एफ./143/2005-कार्मिक व स्था.-I.--श्री नरेन्द्र कुमार पोंडे, वैज्ञानिक "एफ" (कर्मचारी कोड सं. 143) राष्ट्रीय

सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31.07.2005 (अपराह) से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर.एम. नायर, उप निदेशक
(कार्मिक व स्थापना-I)

सं. ए-39013/1/2005-कार्मिक व स्था-I.--सी.एस.आई.आर, नई दिल्ली में 14300--18300/-रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक ग्रेड-IV (4) के पद पर श्री विनोद कुमार अग्रवाल, (कर्मचारी कोड सं. 0279) चयन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति एतद्वारा उनका रासूवि केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक "डी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 29 जुलाई, 2005 की अपराह से स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी दिन से झूट्टी से कार्यमुक्त किया जाता है जिससे कि वे सीएसआईआर, नई दिल्ली में कार्यग्रहण कर सकें।

आर.एम. नायर, उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. 2-2/2002-प्रशा. I.--राष्ट्रपति, सहर्ष डाक विभाग के संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 28.07.2005 से और अगले आदेशों तक उसी संवर्ग में, डेस्क अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं:--

1. श्री एस.पी. आर्य
2. श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव
2. अधिकारियों की कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगी बशर्ते कि इसमें कटौती न की जाए और वे पद से सम्बद्ध विशेष भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

जी.पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सं. 2-2/2003-प्रशा.--वाणिज्य विभाग (आपूर्ति डिवीजन) के संवर्ग में नियमित सहायक श्री सुन्दर सिंह का नाम, वर्ष 2002 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल होने के उपरांत राष्ट्रपति सहर्ष 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में डाक विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 29.07.2005 से नियुक्त करते हैं।

जी.पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. ए-35021/04/2005-प्रशा.I (i).--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.7.2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग के सीएसएस कैडर में (सीएसएल: 5167) स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री सुरेन्द्र रावत को, पर्यटन मंत्रालय में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 13.07.2005 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

तदर्थ आधार पर उपर्युक्त पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए सेलेक्ट लिस्ट में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

ए.एम.बशीर, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सं. ए-35021/03/2005-प्रशा.I (i).--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.7.2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सीएसएस कैडर में (सीएसएल: 5080) स्थायी अनुभाग अधिकारी ए. आर. गोपालाकृष्णन को, पर्यटन मंत्रालय में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 12.07.2005 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

तदर्थ आधार पर उपर्युक्त पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए सेलेक्ट लिस्ट में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

ए.एम.बशीर, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. ई.आर.बी. 1/2005/2/26.--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर. बी.एस.एस) के निम्नलिखित ग्रेड-I (अवर सचिव/उप निदेशक) अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों के पूर्वाह से सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान 12,000-16,500 रु.) में नियुक्त किया गया है:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1	2	3
	(सर्वश्री)	
1.	फेलिक्स केरकेट्टा	25.5.05
2.	सुओ थांग	26.5.05
3.	नकुल मांझी	25.5.05
4.	जीवानन्द	25.5.05
5.	डी.वी. राव	25.5.05
6.	विजयानंद	25.5.05
7.	आर.पी. सिंह	25.5.05
8.	ए.के. भाटिया	26.5.05
9.	कोशी थामस	25.5.05
10.	वी.के. मुद्गल	25.5.05

1	2	3
11.	के. गंगाधरन	6.6.05
12.	यू.के. सूद	26.5.05
13.	एस. श्रीराम	25.5.05
14.	एस. मोहराना	25.5.05
15.	गुरमेल सिंह	31.5.05
16.	आर. के. भटनागर	31.5.05
17.	आर. सुब्रामणियन	26.5.05
18.	बी.के. बान	25.5.05
19.	एस.के. अग्रवाल	25.5.05
20.	परवेज	25.5.05
21.	बनवारी लाल	25.5.05
22.	पी.एस. करूम	25.5.05

एम.के. अग्रवाल, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. ई.(जी.पी.)2003/1/54:-- राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 8, ग्रुप "बी" अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 08.06.2005 से भारतीय रेल विद्युत इंजीनियर सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

2004-05 के लिए पैनाल

मध्य रेलवे

1. आर. प्रसाद (उ.म. रेलवे में कार्यरत)
2. आर.एस. मिश्रा (प.म. रेलवे में कार्यरत)

उत्तर रेलवे

1. किशन लाल (उ.म. रेलवे में कार्यरत)
2. राम लगन (अ.जा.) (उ.म. रेलवे में कार्यरत)

दक्षिण रेलवे

1. कवथलइमुथू
2. आर. माणिकवासगम (अ.जा.)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. रसिका सिंह (अ.ज.जा.) (द.पू. रेलवे में कार्यरत)
2. वी.वी. सुब्बा राव (द.पू. रेलवे में कार्यरत)

एम.के. अग्रवाल, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 9 अगस्त 2005

सं. ई (जीपी)2002/1/49.--राष्ट्रपति महोदय, पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के (पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत) ग्रुप "बी" अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिन्हा की 17.02.2005 से भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2003-2004 के पैनेल में, मूल रूप से नियुक्ति करने हेतु सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. ए-11019/1/04-स्था.--राष्ट्रपति, श्रीमती पुष्प सलिला श्रीवास्तव, आई ए एस (यू टी: 93) को 12750-375-16500 रु. के वेतनमान में दिनांक 04.07.2005 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2005

सं. ए-12022/4/2005-स्था.-I.--राष्ट्रपति, श्री एल. के. जोशी, भा. प्र. से. (मध्य प्रदेश: 70) को दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आनन्द कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2005

सं. ए-19011/3/2005-स्था.I.--राष्ट्रपति, श्री सुनिल कुमार (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) को दिनांक 15.07.2005 (अपराह्न) से 10000-325-15200 रु. के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अग्रवाल, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 05 अगस्त 2005

सं. 6/2005, फाइल सं.-20/31/2005-प्रशा.I.--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 की संख्या-22) के अधिकार की धारा 5(i) के अनुसरण में श्री सतपाल, निदेशक (प्रशासन) को जल संसाधन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है। वे निदेशक (प्रशासन) के अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी करेंगे। केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में वे जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करेंगे और

इस प्रकार की जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता प्रदान करेंगे। वे इस संबंध में अपनी ड्यूटी का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकते हैं। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वो केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेंगा, और उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में ऐसे किसी अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (5) के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी माना जायेगा।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 05 अगस्त 2005

सं. 4/2/2004.ई.II.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के निम्नलिखित अनुसंधान अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेश होने तक 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री एम सेल्वा बालन (अजा)	23.06.2005 (पूर्वाह)
2.	श्री एच बी जगदीश	23.06.2005 (पूर्वाह)
3.	श्री रिजवान अली	23.06.2005 (पूर्वाह)
4.	श्री बी एस चौहान	23.06.2005 (पूर्वाह)
5.	श्री एल आर रंगनाथ	23.06.2005 (पूर्वाह)
6.	श्री एन रमेश	23.06.2005 (पूर्वाह)
7.	श्री जे सिन्हा	23.06.2005 (पूर्वाह)
8.	श्री सी एम शाह	23.06.2005 (पूर्वाह)
9.	श्री एम एम क्षीरसागर	23.06.2005 (पूर्वाह)
10.	श्री डी आर जोशी	23.06.2005 (पूर्वाह)
11.	श्री बी के त्रिपाठी	27.06.2005 (पूर्वाह)
12.	श्री बी एम सिम्पीगर (अजा)	23.06.2005 (पूर्वाह)

गोपाल दास, अवर सचिव

सं. 4/5/2003.ई.II.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के निम्नलिखित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेश होने तक 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में मुख्य अनुसंधान अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्रीमती ए. एस. बर्वे	09.06.2005 (पूर्वाह)
2.	श्री ए. के. हेब्बार	13.06.2005 (पूर्वाह)

2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति, माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के समक्ष लंबित रिट याचिका सं. 6843/1999 के परिणाम के अधीन रहेगी।

गोपाल दास, अवर सचिव

सं. 4/3/2004-स्था. II.--राष्ट्रपति, श्री यू. वी. पुरन्दरे, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे को 23.06.2005 अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश होने तक 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में अपर निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

गोपाल दास, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अगस्त 2005

सं. मवि-11/6/2005-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जुलाई 2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस I (बी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) श्री कृष्ण कुमार को रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 12 जुलाई 2005 के पूर्वाह से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:--

- (1) श्री कृष्ण कुमार की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
- (2) यह तदर्थ नियुक्ति किसी समय कोई कारण बताए बिना की जा सकती है।

एम. एल. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 9 अगस्त 2005

सं. मवि-44-स्था./143/83.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च 2004 के आदेश सं. 21/10/2004-सीएस I (बी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) श्री बी. एल. कुरील को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 20 अगस्त 1999 के पूर्वाह से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं। श्री बी. एल. कुरील की यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:--

- (1) श्री बी. एल. कुरील की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
- (2) यह तदर्थ नियुक्ति किसी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

एम. एल. शर्मा, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. ए-38011/2/2005-भा.सू.से.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीखों से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी	का नाम	धारित पद	कार्यालय	इला सं.	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री टी. जी.	नल्लामुथु	महानिदेशक	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	4939	31.05.2005
2.	श्री डी. पी. शर्मा		संयुक्त निदेशक	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, जयपुर	8221	30.06.2005
3.	श्री जी. सुधीर		संयुक्त निदेशक	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	7791	30.06.2005

2. प्रत्येक अधिकारी ने उनके नाम के सामने निर्दिष्ट तारीख से अपने संबंधित कार्यालय में उनके द्वारा धारित पद का कार्यभार त्याग दिया है।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110011, the 8th August 2005

No. RS/3(xiii)/2005/40-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Jitendra Mohan Bhardwaj, Senior Security Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Security Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in that Secretariat with effect from the forenoon of the 8th August, 2005, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 20th July 2005

No. A-12025/13/2002-Adm. II.—On the recommendation of the UPSC, the President is pleased to appoint Shri Prem Singh, Research Officer (Communications) to the post of Senior Research Officer (Educational Planning) in the Planning Commission on regular promotion basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 12th July, 2005 and until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 29th July 2005

No. PC(P)19/Adm/SRO/2003-WGS.—In partial modification of Western Ghats Secretariat's Notification of even number dated 2nd May, 2005, the President is pleased to extend the period of deputation of Shri Mevaram, Assistant Director of the Department of Expenditure, Ministry of Finance as Senior Research Officer in the Western Ghats Secretariat for two years w.e.f. 12.05.2005 to 11.05.2007 or until further orders, whichever is earlier.

Dr. (Mrs.) INDU PATNAIK, Dy. Adviser (MLP)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 18th July 2005

No. A-32013/01/2003-Admn. IV (LA).—Pursuant to Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/11/2003-C.S.II dated 23.06.2005, the President is pleased to appoint Shri A. K. Thakur, Sr. PPS (Ad-hoc) in Law Commission, Department of Legal Affairs as Senior Principal Private Secretary in the same Department on his inclusion to the Senior Principal Private Secretary Grade of CSSS for the Select List Year-2001.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

New Delhi-110001, the 3rd August 2005

No. A-12023/13/2005-Admn. III(LA).—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint

Shri V. V. S. N. Murthy as Accountant Member of the Income-tax Appellate Tribunal with effect from the forenoon of 18th July 2005 and until further orders.

V. M. RATHNAM, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd August 2005

No. 14016/23/2004-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect:—

Sl. No.	Name of the Officers	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Jagminder Singh	D-I/480	01.03.1956
2.	Mahesh Chand Sharma	D-I/481	09.07.1947
3.	Surender Pal Singh	D-I/482	03.12.1948
4.	Satyavrat	D-I/483	05.08.1946
5.	Rajinder Prashad (SC)	D-I/155	27.11.1951

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi, the 9th August 2005

No. I-18012/6/2005-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Himachal Pradesh with effect from the dates indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of confirmation in the IPS
	S/Shri	
1.	Amar Nath Sharma	19.09.1995
2.	Dharam Pal	19.12.1995
3.	Pradeep Kumar	15.10.1997
4.	Jog. Raj Thakur	12.06.1998
5.	Shiv Ram Sharma	06.03.1999
6.	P. L. Thakur	12.11.1999
7.	Ganesh Dutta Bhargava	10.09.2000
8.	Shiv Pal Singh Verma	09.08.2001

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi-110001, the 09th August 2005

No. I-14012/8/2004-IPS.IV.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Satyendra Mathuria, IPS (West Bengal: 2003), from Indian Police Service with effect from the afternoon of 13th May 2005.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN
REGION

New Delhi-110011, the 3rd August 2005

No. 2/16/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Gauri Chatterji, IAS (WB: 1971) in the post of Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region with effect from the forenoon of 1st August 2005.

SAJAL MITTRA, Director (Admn)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 29th July 2005

No. 24012/10/2003-Estt (B).—The President is pleased to appoint Shri Barun Mitra, Section Officer of CSS cadre of Ministry of Home Affairs presently working in Assistant Director, Staff Selection Commission, Kolkata as Deputy Director in the Eastern Regional Office of Staff Selection Commission at Kolkata in the pay scale of Rs. 10,000-375-15,200/- on deputation basis for a period of three years with effect from 14.06.2005 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

Smt. SHUBHA THAKUR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd August 2005

No. A-32013/2/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following Grade-I Officers of Central Secretariat Service as Under Secretaries purely on an ad-hoc basis in Department of Personnel and Training with effect from the date indicated against their names, until further orders:—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Appointment
1.	Sh. Mohinder Singh Sharma	13.07.2005 (F/N)
2.	Sh. A. K. Cashyap	11.07.2005 (F/N)

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The ad-hoc appointment can be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi-110001, the 8th August 2005

No. 24012/1/2005-AIS(II).—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. V. Iyer, IAS (MP: 81), a

member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Madhya Pradesh, from the Indian Administrative Service with effect from 9th July, 1998.

SHAUKAT ALI, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 28th July 2005

No. A-12011/8/2005-Admn.II.—In pursuance of O. M. No. 11017/1/2005-CAS dated 26.07.2005 of Department of Expenditure (CAS), Ministry of Finance, the President is pleased to appoint Smt. C. P. Marwah, Assistant of CSS of Finance Cadre, as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 26.07.2005 (FN) and until further orders.

2. The ad-hoc appointments of Smt. C. P. Marwah, Assistant as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:

- Ad-hoc appointments being a stop gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-19011/4/2003-Admn.II.—In terms of Department of Personnel and Training communication No. 4/12/2005-EO (SM.I) dated 26th July 2005, the President is pleased to appoint Shri Vivek Mehrotra, IAS (HY: 74), as Additional Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on personal upgradation basis with effect from the forenoon of 27th July 2005, until further orders.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th August 2005

No. 2/13/2000-Coin.I.—In continuation of this Department's Notifications of even number dated 07.08.2001 and dated 14.09.2004, the President is pleased to extend the appointment of Shri Prasanta Kumar Das as General Manager in India Government Mint in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- on deputation basis for a

period of six months with effect from 07.08.2005 or until further orders, whichever event occurs earlier.

NAVIN K. CHOUDHARY, Dy. Secy.

New Delhi, the 5th August 2005

No. 8(9)/2004-Cy.I (SMP).—On attaining the age of superannuation, Shri Davinder Mohan Sharma, Deputy General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad, relinquished the charge of the post of Deputy General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad on 31.05.2005 (AN). His name stands deleted from the rolls of Security Paper Mill with effect from that date.

P. K. SHARMA, Under Secy.

(CURRENCY & COINAGE DIVISION)

New Delhi, the 5th August 2005

No. 4(5)/2002-Cy.I (SPM).—The President is pleased to appoint Shri K. R. Fasatey Purchase Officer, Security Paper Mill, Hoshangabad to the post of Assistant Manager (Stock Control) in the scale of Rs. 8000—13500/- (revised) in the Security Paper Mill, Hoshangabad on regular basis w.e.f. 14.07.2005 (forenoon) on promotion and until further orders.

P. K. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 8th August 2005

No. A-22015/1/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- on purely ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against their names and until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment to the Under Secretary Grade
	S/Shri	
1.	N. K. Bhagat	25.07.2005 (F/N)
2.	Smt. S. Tamhane	22.07.2005 (F/N)
3.	Manab Ray	14.07.2005 (F/N)

2. The above mentioned ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions.

- Ad-hoc appointments shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. PFG (1923) Admn.I/2005.—Shri S. S. Sharma, Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st July, 2005.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 15th July 2005

No. 19/2005 (A-32012/2/2004-E.I).—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/24/2005-CS.I (B), dated the 7th July, 2005, the President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) on ad-hoc basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No./SL Year	Date of taking over charge
1.	Sh. R. P. Singh	5111	11.07.2005
2.	Sh. Prem Chandra Pandey	5130	14.07.2005
3.	Sh. Mohan Lal Wadhvani	5138	11.07.2005
4.	Sh. S. K. Goel	5159	11.07.2005
5.	Sh. Krishna Chandra Kumar	5174	11.07.2005

2. The ad-hoc appointment of the above Officers is subject to the following:—

- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade I.
- Ad-hoc appointments may be terminated at any time without giving any reason therefor.

S. K. TULI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 6th July 2005

No. A-19011/9/2005-Estt.—Consequent on his inclusion in the Select List of Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS under the Zoning Scheme for the year 2001 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/11/2002-CS. II dated 30th May, 2005 and having been relieved by the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, the President is pleased to appoint Shri G. S. Vazir as Private Secretary Grade 'A & B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 1st July, 2005.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 1st August 2005

No. P-I/413/2004-Estt.—The President is pleased to relieve Shri R. K. Bhargava, IAS (MH: 72) from the post of Additional Secretary in the Ministry of Mines with effect from the forenoon of 1st August, 2005 to take over the charge of Additional Secretary, Department of Justice, Ministry of Law & Justice as assigned to him vide Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Communication No. 4/12/2005-EO (SM. I) dated 26th July, 2005.

T. S. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 18th July 2005

No. 5(17)/91-Estt.—On having being nominated by the DoPT for ad-hoc appointment in Grade-I of the CSS and as Under Secretary in the Ministry of Home Affairs, Shri B. K. Verma, Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Steel is hereby relieved of his duties with effect from the forenoon of the 18th July, 2005. His services will accordingly stand placed at the disposal of the Ministry of Home Affairs from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

The 1st August 2005

No. 11(4)/2005-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Mukherjee, Grade-I of Central Secretariat Service who was working as Deputy Secretary in the Ministry of Steel has retired from Government Service on 31.07.2005.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 11(14)/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Rani Khurana, Assistant in the CSS Cadre of the Ministry of Steel as Section Officer on an ad-hoc basis in the same service and cadre with immediate effect and until further orders or till a regular arrangement is made whichever is earlier.

The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for the inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

BABOO RAM, Under Secy.

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)**

New Delhi-110016, the 2nd August 2005

No. A-19014/01/2005-Admn.—The President is pleased

to appoint Shri Srinibas Pradhan, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) (CSL No. 5092) Cadre of Ministry of Commerce and Industry, (Department of Industrial Policy and Promotion) as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis with effect from 12.07.2005 (FN) and until further orders.

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 30th June 2005

No. A-38011/1/2004-PI.—Shri N. K. Sharma, Additional Director (Scientific) in the Ministry of Environment & Forests retired from the Government Service on attaining the age of superannuation from the afternoon of 30th June, 2004.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th July 2005

No. A-32013/08/2005-Estt.I.—Consequent upon her promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dated the 7th July, 2005, the President is pleased to appoint Smt. Valsamma K. Daniel, a regular Section Officer of the cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, as Under Secretary in the Department of Health & Family Welfare, purely on ad-hoc basis, w.e.f. the forenoon of 15th July, 2005 and until further orders. The ad-hoc promotion is subject to following conditions:—

- (1) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (2) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 22nd July 2005

No. A-12025/8/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Madhurima Taneja to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21.05.2005 until further orders. Dr. Madhurima Taneja is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 5th August 2005

No. A-12025/35/2000-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shankar Prasad K. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 27.02.2001 until further orders. Dr. Shankar Prasad K. is posted as Medical Officer under Rural Health and Training Centre, Najafgarh, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 8th August 2005

No. A-12025/13/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lalit Mohan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 09.04.2005 until further orders. Dr. Lalit Mohan is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/72/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Hari Om Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 25.05.2005 until further orders. Dr. Hari Om Gupta is posted as Medical Officer under National Institute of Communicable Diseases, Alwar with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 1st August 2005

No. A-32013/9/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Ms. Archana Varma, IAS (AM: 95) as Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare for a period of four years w.e.f. 18th July 2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 22nd July 2005

No. A-12031/2/96-ISM (E.II).—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/

2005-CS.I dated 07.07.2005, Shri Anshuman Sharma, a Section Officer of Central Secretariat Service, is appointed to the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service, purely on ad-hoc basis, in scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 14th July, 2005 until further orders.

2. The promotion of Shri Anshuman Sharma as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

M. L. SIDANA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 2nd August 2005

No. 4-3/95-My(Adm.).—On the recommendation of Departmental Promotion Committee (Group 'A' Gazetted) of the Department of Agriculture & Cooperation, the competent authority is pleased to appoint Shri J. J. R. Narware as Senior Test Engineer (G.C.S. Group 'A' Gazetted, Non-Ministrial) by promotion on selection basis at Farm Machinery Training & Testing Institute, Anantapur (AP) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- with effect from 06.07.2005 (FN).

H. C. BATRA, Under Secy.

New Delhi, the 4th August 2005

No. 12026/5/2001-E.I/E.V.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Dharam Pal, Deputy Commissioner (INM) in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Deputy Commissioner (INM) for the period from 10.05.2005 to 24.05.2005.

2. The above ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for seniority in the grade of Deputy Commissioner (INM).

K. D. UPRETI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 2nd August 2005

No. A-19011/7/2005-Admn. I.—The President is pleased to appoint Dr. Majdood Ahmad, Director, Central Poultry

Development Organisation, Hessarghata, Bangalore as Deputy Commissioner (Poultry) in the pay scale of Rs. 12000—16500/- on deputation basis in this Department with effect from the forenoon of 25.07.2005 for a period of 4 years or till the date of his superannuation whichever is earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

the year 2002 (Seniority Quota), the President is pleased to appoint Shri Sunder Singh, a regular Assistant in the cadre of Department of Commerce (Supply Division) as Section Officer in the cadre of the Department of Posts, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on regular basis with effect from 29.07.2005.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th July 2005

No. NIC/PF/143/2005-P&E-I.—Shri Narendra Kumar Pandey, Scientist 'F' (Emp Code 143), National Informatics Centre, New Delhi has retired on superannuation from Government Service w.e.f. 31.07.2005 (AN) and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E.I)

No. A-39013/1/2005-P&E.I.—Consequent upon his Selection to the post of Scientist Grade-IV(4) in the pay scale of Rs. 14300—18300/- in CSIR Hqrs, New Delhi, President is pleased to accept the resignation of Sh. Vinod Kumar Agarwal, Emp-Code-279 from the post of Scientist 'D', National Informatics Centre, New Delhi from the afternoon of 29th July 2005. He is relieved of his duties from the same day to enable him to join CSIR, Hqrs, New Delhi.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E.I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 2nd August 2005

No. 2-2/2002-Admn.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of the cadre of the Department of Posts as Desk Officers in the same cadre with effect from 28.07.2005 and until further orders:—

1. Shri S. P. Arya

2. Smt. Archana Srivastava

2. The tenure of the officers will be three years from the date of appointment unless curtailed earlier and they will be entitled for the special allowance attached to the post.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

No. 2-2/2003-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 27th July 2005

No. A-35021/04/2005-Admn.I(I).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dated 07.07.2005, the President is pleased to appoint Shri Surendra Rawat a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Department of Commerce (CSL: 5167) to Grade-I of the CSS (Under Secretary) purely on an ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Tourism w.e.f. 13.07.2005 (FN) and until further orders.

2. The above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

A. M. BASHEER, Asstt. Director General (Admn.)

No. A-35021/03/2005-Admn.I(I).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dated 07.07.2005, the President is pleased to appoint Shri A. R. Gopalakrishnan a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Finance (Department of Revenue) (CSL: 5080) to Grade-I of the CSS (Under Secretary) purely on an ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Tourism w.e.f. 12.07.2005 (FN) and until further orders.

2. The above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

A. M. BASHEER, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd July 2005

No. ERB-1/2005/2/26.—The following Grade-I (Under Secretary/Deputy Director) officers of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been appointed in Selection Grade (Scale Rs. 12,000—16,500/-) of the service

with effect from forenoon of the date indicated against each:—

Sl. No.	Name	Date of promotion
	S/Shri	
1.	Felix Kerketta	25.05.05
2.	Suo Thang	26.05.05
3.	Nakul Manjhi	25.05.05
4.	Jiwanand	25.05.05
5.	D. V. Rao	25.05.05
6.	Vijayanand	25.05.05
7.	R. P. Singh	25.05.05
8.	A. K. Bhatia	26.05.05
9.	Koshy Thomas	25.05.05
10.	V. K. Modgal	25.05.05
11.	K. Gangadharan	06.06.05
12.	U. K. Sood	26.05.05
13.	S. Sreeram	25.05.05
14.	H. Mohrana	25.05.05
15.	Gurmail Singh	31.05.05
16.	R. K. Bhatnagar	31.05.05
17.	R. Subramanian	26.05.05
18.	B. K. Ban	25.05.05
19.	S. K. Agarwal	25.05.05
20.	Parvez	25.05.05
21.	Banwari Lal	25.05.05
22.	P. S. Kurup	25.05.05

M. K. AGARWAL, Secy./Railway Board

The 2nd August 2005

No. E(GP)2003/1/54.—The President is pleased to approve of the undermentioned Eight Group 'B' Officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Electrical Engineers with effect from 08.06.2005 on the Railway/Production Unit mentioned.

Sl. No.	Name of the Officer
1	2

Panel for the Year 2004-2005

Central Railway

- | | | |
|----|------------------|------------------|
| 1. | Sh. R. Prasad | (Working in NCR) |
| 2. | Sh. R. S. Mishra | (Working in WCR) |

1	2
---	---

Northern Railway

- | | | |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | Sh. Kishan Lal | (Working in NCR) |
| 2. | Sh. Ram Lagon (SC) | (Working in NCR) |

Southern Railway

- | | |
|----|----------------------------|
| 1. | Sh. Kavathalaimuthu |
| 2. | Sh. R. Manickavasagam (SC) |

South Eastern Railway

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1. | Sh. Rasika Singh (ST) | (Working in SECR) |
| 2. | Sh. V. V. Subba Rao | (Working in SECR) |

M. K. AGARWAL, Secy./Railway Board

The 9th August 2005

No. E(GP)2002/1/49.—The President is pleased to approve of Shri Arvind Kr. Sinha, a Group 'B' Officer of Civil Engineering, Department of Eastern Railway, now working in East Central Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 17th February, 2005 on that Railway, against the panel for the year 2003-2004.

M. K. AGARWAL, Secy./Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110001, the 18th July 2005

No. A-11019/1/04-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Punya Salila Srivastava, IAS (UT: 93) as Deputy Secretary in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 w.e.f. 04.07.2005 (FN) for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

S. K. SHAHI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 3rd August 2005

No. A-12022/4/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Shri L. K. Joshi, IAS (MP: 70) as Secretary, Department of Road Transport & Highways w.e.f. 01.08.2005 (FN).

A. K. AGGARWAL, Under Secy.

The 8th August 2005

No. A-19011/3/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar, (Central Secretariat Official Language Service) as Deputy Director (Official Language) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways) w.e.f. 15.07.2005 (AN).

A. K. AGGARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 5th August 2005

No. 6/2005 F. No. 20/31/2005-Admn.—In pursuance of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), Shri Satpal, Director (Administration) is designated as the Central Public Information Officer in the Main Secretariat of the Ministry of Water Resources. He shall carry out the duties as Central Public Information Officer in addition to his own duties as Director (Admn.). As Central Public Information Officer he shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information. He may seek the assistance of any other officer as he considers it necessary for the proper discharge of his duties. Any officer whose assistance has been sought under the above Act shall render all assistance to the Central Public Information Officer, and for the purposes of any contravention of the provisions of the above Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer under sub clause (5) of Section 5 of the Right to Information Act, 2005.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 05th August 2005

No. F. No. 4/2/2004-E.II.—The President is pleased to appoint the following Research Officers of Central Water and Power Research Station, Pune to officiate as Senior Research Officers in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- from the date shown against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge
1	2	3
1.	Sh. M Selva Balan (SC)	23.06.2005 (FN)
2.	Sh. H. B. Jagadeesh	23.06.2005 (FN)
3.	Sh. Rizwan Ali	23.06.2005 (FN)
4.	Sh. B. S. Chavan	23.06.2005 (FN)
5.	Sh. L. R. Ranganath	23.06.2005 (FN)
6.	Sh. N. Ramesh	23.06.2005 (FN)
7.	Sh. J. Sinha	23.06.2005 (FN)

1	2	3
8.	Sh. C. M. Shah	23.06.2005 (FN)
9.	Sh. M. M. Kshirsagar	23.06.2005 (FN)
10.	Sh. D. R. Joshi	23.06.2005 (FN)
11.	Sh. V. K. Tripathi	27.06.2005 (FN)
12.	Sh. B. M. Simpiger (SC)	23.06.2005 (FN)

GOPAL DASS, Under Secy.

No. F. No. 4/5/2003-E.II.—The President is pleased to appoint the following Senior Research Officers of Central Water and Power Research Station, Pune to officiate as Chief Research Officers in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- from the date shown against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge
1	2	3
1.	Smt. A. S. Barve	09.06.2005 (FN)
2.	Sh. A. K. Hebbar	13.06.2005 (FN)

2. The appointment of the above Officers in the grade of Chief Research Officer will be subject to the outcome of the Writ Petition No. 6843/1999 pending before Hon'ble High Court of Mumbai.

GOPAL DASS, Under Secy.

No. File No. 4/3/2004-Estt.II.—The President is pleased to appoint Shri U. V. Purandare, Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune to officiate as Additional Director in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- with effect from 23.06.2005, i.e. the date of his taking over charge as Additional Director, until further orders.

GOPAL DASS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 4th August 2005

No. DOD/11/6/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training Order No. 21/24/2005-CS.I, dated the 7th July, 2005, the President is pleased to appoint Shri Krishan Kumar as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 12th July, 2005 and until further orders. The ad-hoc appointment of Shri Krishan Kumar is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment of Shri Krishan Kumar shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim senior in the Grade I of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

M. L. SHARMA, Dy. Secy.

The 9th August 2005

No. DOD/44-Estt./143/83.—In pursuance of the Department of Personnel & Training Order No. 21/10/2004-CS.I, dated the 25th March, 2004, the President is pleased to appoint Shri B. L. Kureel, officiating as Under

Secretary (in-situ) since 20th August, 1999 as Under Secretary (Grade I of CSS) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th March, 2004 and until further orders. The ad-hoc appointment of Shri B. L. Kureel is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment of Shri B. L. Kureel shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim senior in the Grade I of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

M. L. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 26th July 2005

No. A-38011/2/2005-IIS.—On attaining the age of superannuation, the following JAG/JAG (NFSG) & SAG officers of IIS Group 'A' retired from Government service from the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Post held	Office	IRLA No.	Date of retirement
1.	Shri T. G. Nallamuthu	Director General	DFP, New Delhi	4934	31.05.2005
2.	Shri D. P. Sharma	Joint Director	DFP, Jaipur	8221	30.06.2005
3.	Shri G. Sudhir	Joint Director	DAVP, New Delhi	7791	30.06.2005

2. Each of the officers relinquished the charge of the post held by him in his respective office on the date indicated against his name.

V. K. SEKHRI, Under Secy.